

थाना रोजा पुलिस द्वारा दो शातिर किस्म के चोर/लुटेरे गिरफ्तार , 29 अदद मंहगे

(कीमत लगभग 4 लाख रू0) मल्टीमीडिया मोबाईल फोन बरामद ।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रवीण कुमार के कुशल पर्यवेक्षण मे चोरी तथा लूट की घटनाओं पर रोकथाम के क्रम मे रोजा पुलिस को बडी सफलता मिली ।

दिनांक 26/09/21 की शाम को थाना रोजा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना पर मिली कि दो व्यक्ति सीतापुर रोड पर स्थित टेढ़ी पुलिया पर चोरी/ लूट के मोबाईल लेकर गांव मे बेचने जा रहे हैं । उक्त सूचना पर थाना रोजा पुलिस द्वारा सूचना व निशानदेही पर टेढ़ी पुलिया से दो व्यक्तियों क्रमशः 1. सर्वेश मौर्य पुत्र विश्राम निवास सिसौआ थाना रोजा जनपद शाह0 2. इलियास पुत्र वली मोहम्मद निवासी बरादरी ईदगाह के पास थाना सदर बाजार जनपद शाह0 को क्रमश 14 व 15 (कुल 29 अदद) चोरी / लूट के मोबाईल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणो के विरुद्ध सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तारी अभियुक्तगण :

1. सर्वेश मौर्य पुत्र विश्राम निवास सिसौआ थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर ।
2. इलियास पुत्र वली मोहम्मद निवासी बरादरी बरादरी ईदगाह के पास थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

1. 29 अदद मंहगे एंड्रोएड मोबाइल फोन ।(कीमत करीब 04 लाख रूपये)

गिरफ्तारी पूछताछ – पूछताछ से आरोपियों ने बताया वह नशे व आय्याशी के आदी हैं। जिसके चलते खर्च पूरे करने के लिये जनपद शाहजहाँपुर व आसपास के अन्य जिलों तथा दिल्ली व हरियाणा मे मोबाईल फोन की चोरी /छिनैती की घटनाएं करते हैं। इनके द्वारा जनपद शाहजहाँपुर मे अलग अलग जगहों मे चोरी/छिनैती की घटनाएं स्वीकार की गयी हैं। बरामद मोबाईलों की IMEI रन कराकर उनके मालिकों के बारे मे पता लगाकर विधिक कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी हेतु सर्विलांस शाखा को बरामद मोबाईल फोन की IMEI भेजकर सर्विलांस पर लगवाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण जुआंरी भी हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ से बताया कि हम लोग मोबाईल इसलिये चोरी /लूट करते हैं कि इसमे लोग मुकदमा नहीं लिखाते हैं और मंहगा फोन हम लोग गांव मे गरीब अनपढ़ लोगों को आधे दाम पर बेंच देते हैं तथा कागज मांगने पर उन्हे कागज बाद मे देने की बात कहकर चले जाते हैं। चूंकि गांव का आदमी सीधा-साधा होता है इसलिये वह ज्यादा पूछताछ नहीं करता और लालचवश सस्ते दाम मे फोन खरीद लेता है। अभियुक्तगण अपना ऊंचा शौक पूरा करने के लिये चोरी व लूट की घटना करते हैं तथा गर्लफ्रेंड की डिमांड पूरा करने हेतु महीने मे 6-7 मोबाईल फोन बेचकर खर्च पूरा करते हैं। अभियुक्तगण विगत एक वर्ष से इस काम मे लिप्त हैं।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :

- 1.थाना प्रभारी जयशंकर सिंह
2. उ0नि0 हरकेश सिंह
3. हे0का0 143 विजय प्रताप सिंह
4. का0 1402 मोहसिन उस्मानी
5. का0 विनय चौधरी
6. का0 दीपक गौतम